

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1  
संख्या- 826 /XXVIII(1)/2019-08(मे0का) TC / 2019

देहरादून : दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या- 281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अस्थाई रूप से राजकीय मेडिकल कालेजों में नियुक्त प्रदान की गयी है।

2- उक्त के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पद पर योगदान प्रस्तुत किये जाने हेतु अतिरिक्त समय मांगे जाने के फलस्वरूप शासन के सम्यक विचारोपरान्त तालिका में उल्लिखित कॉलम-4 अनुसार योगदान दिये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है-

राजकीय दून मेडिकल कालेज

क्र० सं०	नाम	विभाग का नाम	योगदान हेतु अतिरिक्त समय	पता
1	2	3	4	5
	डा० रजत रंजन	आर्थोपेडिक्स	एक सप्ताह	बी-2/25, सेक्टर-एफ, जनकुपुरम, रिंग रोड, लखनऊ -226021

राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी

क्र० सं०	नाम	विभाग का नाम	योगदान हेतु अतिरिक्त समय	पता
1	2	3	4	5
1	डा० काजल जैन	कम्युनिटी मेडिसन	एक सप्ताह	60- राजा रोड, देहरादून। 248001
2	डा० मेहर बानो	कम्युनिटी मेडिसन	03 माह	106 शक्ति विहार कालोनी महर, फेस-1 देहरादून। 248001
3	डा० अपर्णा भारद्वाज	पैथोलॉजी	एक सप्ताह	1-मेन स्ट्रीट, आर्शीवाद एन्कलेव, चकराता रोड, देहरादून।

*(Handwritten signature)*

4	डा0 निधि नेगी	माइक्रोबायोलॉजी	एक सप्ताह	ग्राम व पोस्ट-गुजराडा सहस्रधारा रोड देहरादून।
---	------------------	-----------------	-----------	--

राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर

क्र0 सं0	नाम	विभाग का नाम	योगदान हेतु अतिरिक्त समय	पता
1	2	3	4	5
1	डा खुसबू जुनेजा	कम्युनिटी मेडिसन	एक सप्ताह	जी-86 सेक्टर डेल्टा 2 ग्रेटर नोयडा उत्तर प्रदेश 202001
2	डा चेतन बंसल	ई0एन0टी0	एक सप्ताह	लेन न0 -11 चमन विहा जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर देहरादून।
3	डा उर्वसी कोटवाल	ब्लड बैंक	01 माह	एच.न.- 4, सेक्टर- बी, तीरथा नगर तालाब टील्लू भोरी जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर 180002
4	डा0 मनु भारद्वाज	अथोमोलॉजी	एक सप्ताह	2- चन्द्रर रोड , डालनवाला, देहरादून 248001
5	डा0 सुरेश चन्द	आर्थोपेडिक्स	एक सप्ताह	सी0-185 कुरमान्चल नगर, पो0ओ0 इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश 243301
6	डा0 प्रियंका असवाल	पैथोलॉजी	03 माह	राम सिंह असवाल, माजरी माफी, कलींका विहार, मोहकम पुर, आई.आई.पी. देहरादून।
7	डा तृप्ता कौर	माइक्रोबायोलॉजी	एक सप्ताह	35 सैनी एन्कलेव, विकास मार्ग एक्सटेशन, दिल्ली- 110092

राजकीय मेडिकल कालेज अल्मोडा

क्र0 सं0	नाम	विभाग का नाम	योगदान हेतु अतिरिक्त समय	पता
1	2	3	4	5
1	डा0 भानु प्रताप सिंह गौर	कम्युनिटी मेडिसन	माह सितम्बर, 2019	टाइप-IV/7/36 चाखरगांव, पोर्टबलेर, साउथ अण्डमान निकोबार -744112

*Print*

2	डा0 किरन	पैथोलॉजी	एक सप्ताह	राजपाल सिंह, मंगल विहार कालोनी, गली न0 2 सुनहरा रोड, रूडकी, हरिद्वार 247667
3	डा0 शिवांगी राणा	स्कीन वी0डी0	एक सप्ताह	फ्लैट न0 जी0एच- 309, एक्सेल अपार्टमेन्ट, 180 जी0टी0 रोड, साहीबाबाद, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201005

3- उक्त अभ्यर्थियों द्वारा तालिका में उल्लिखित समयान्तर्गत योगदान न दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थन कर दिया जायेगा।

(नितेश कुमार झा)  
सचिव

संख्या- 826 /XXVIII(1)/2019-08(मे0का)TC / 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
3. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उनके पत्र संख्या-उ0स0चि0 से0च0बो0/परी0/47/2018-19(II)/117 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के क्रम में।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धितों अभ्यर्थियों को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, दून/हल्द्वानी/श्रीनगर/अल्मोडा।
6. संबंधित अभ्यर्थियों को संलग्न सूची के अनुसार पंजीकृत डाक द्वारा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(शिव शंकर मिश्रा)  
अनुसचिव